

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 जून 2015—ज्येष्ठ 16, शक 1937

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2015

क्र. एफ-10-13-2011-25-4.—राज्य शासन एतद्वारा महर्षि बाल्मीकी की स्मृति में अनुसूचित जाति समुदाय के क्षेत्रों में समाज सेवा का उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवक/समाज सेवकों को पुरस्कृत करने के लिए दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 को निर्मित 'मध्यप्रदेश महर्षि बाल्मीकी स्मृति पुरस्कार' में निम्नानुसार संशोधन करता है:—

'जूरी के सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर यात्रा व्यय के अतिरिक्त पारिश्रमिक राशि रु. 5000/- दिया जायेगा.'

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.